



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276]
No. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1981/श्रावण 15, 1903
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1981/SRAVANA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1981

सं० का० नि० 478(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्राकट्य, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा यथा प्रेषित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या मा० का० नि० 83 तारीख 13 जनवरी, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 24 जनवरी, 1981 के पृष्ठ 154 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना थी

और उक्त राजपत्र 9 फरवरी, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्राकट्य की जावत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (प्रथम संशोधन) नियम 1981 है।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में, विद्यमान नियम 43-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“43क. किसी भी औषधि का निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक से ही भारत में आयात किया जाएगा, अन्यथा नहीं अर्थात् :—

फिरोज़पुर छावनी और अमृतसर रेल स्टेशन :

पाकिस्तान से सीमा पर रेल द्वारा आयातित औषधियों की जावत।

राणाघाट, बनगांव और मोहिआसन रेल स्टेशन :

बंगला देश से सीमा पर रेल द्वारा आयातित औषधियों की जावत।

मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और कोचीन :

भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की जावत।

मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद :

भारत में वायु मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की जावत।”

[सं० एक्स 11013/4/80-डी एम एस एण्ड पी एफ ए]

बी०बी०एस० मणी, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1981

G.S.R. 478(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published, as required by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 83, dated the 13th January, 1981, at page 154 of the Gazette of India, Part II-Section 3, Sub-Section (i), dated the 24th January, 1981, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date of publication of the draft notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 9th February, 1981.

And whereas no objection or suggestion has been received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940

(23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 1981.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 for the existing rule 43-A, the following shall be substituted, namely:—

“43-A. No drug shall be imported into India except through one of the following places, namely:—

Ferozepur Cantonment and Amritsar Railway Stations :

In respect of drugs imported by rail across the frontier with Pakistan.

Ranaghat, Bongaen and Mohiassan Railway Stations :

In respect of drugs imported by rail across the frontier with Bangladesh.

Madras, Calcutta, Bombay and Cochin :

In respect of drugs imported by sea into India Madras Calcutta, Bombay, Delhi and Ahmedabad :

In respect of drugs imported by air into India”.

[No. X-11013/4/80-DMS&PFA]

C. V. S. MANI, Additional Secy.